



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, मार्च 12—मार्च 18, 2017, शनिवार/फाल्गुन 21—फाल्गुन 27, 1938
No. 7] NEW DELHI, MARCH 12—MARCH 18, 2017, SATURDAY/PHALGUNA 21—PHALGUNA 27, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.नि.आ. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय, वर्ग-3 तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अननुसचिवीय पद भर्ती नियम, 1972 जहां तक उसका संबंध नक्शानवीश श्रेणी-3 के पद से है को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में नक्शानवीश के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नक्शानवीश, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नक्शानवीश	04*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (25,500-81,100 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से	आवश्यक: (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण) या समतुल्य। (ख) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य से नक्शानवीशी में कम से कम दो वर्ष की अवधि का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या डिप्लोमा (जिसके अंतर्गत छः माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी है।) वांछनीय: ऑटोमेटिड कम्प्यूटर एडिट डिजाइन (ऑटोकेड) में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या समतुल्य और कम्प्यूटर तथा उसकी परिधिओं का उपयोग करते हुए कलाओं के सर्जन का ज्ञान हो। टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम

					<p>आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. कमान अधिकारी वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन खण्ड (आयुध्यादि), खमरिया	-अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-1 वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	-सदस्य
3. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के किसी भी क्षेत्र के स्थापन से ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2	-सदस्य

[फा. सं. 2545/भर्ती नियम(समूह 'ख' और 'ग' नक्शानवीश)/डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी-(हाल)]

इंद्रजीत सेठी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 28th February, 2017

S.R.O. 14.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Technical Development and Production (Air) Organisation Class III Technical, Scientific and other Non-Ministerial posts Recruitment Rules, 1972, in so far as it relates to the post of Draughtsman Grade-III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Draughtsman in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Draughtsman, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other related matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation/relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Draughtsman	04*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
<p>Between 18 to 25 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>Essentials :</p> <p>(a) Matriculation (10th class pass) or equivalent from a recognized Board or University.</p> <p>(b) Certificate course or Diploma in Draughtsmanship of a duration of not less than two years (including six months practical training) from a recognised Industrial Training Institute or equivalent.</p> <p>Desirable:</p> <p>Certificate course in Automated Computer Aided Design (AUTOCAD) or equivalent and having knowledge of creating drawings using computer and its peripherals.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the</p>	Not applicable

	Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies required for them.	
--	--	--

Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria – Chairman (2) Senior Scientific Officer Grade-I from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member (3) Senior Scientific Officer Grade-II from any field establishment of Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 2545/RRs (Gp 'B' & 'C' Draughtsman)/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.नि.आ. 15.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्रमशः (i) सेना समूह 'ख' (ज्येष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव) भर्ती नियम, 2006 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव के पदों से है, और (ii) रक्षा मंत्रालय सेना (आशुलिपिक श्रेणी-I) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 को जहाँ उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी- I के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में सेना की निम्नतर विरंचनाओं में ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आशुलिपिक कॉडर (समूह 'ख' राजपत्रित और अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2017 है ;
(ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .**— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति .**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. ज्येष्ठ निजी सचिव	21* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, सचिवीय	स्तर-8 (रु. 47600-151100)	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
<p>प्रोन्नति : वेतन स्तर-7 (रु. 44900-142400) में के ऐसे निजी सचिव जिन्होंने उस वेतन स्तर में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके न हो पाने पर वेतन स्तर-6 (रु. 35400-112400) में के ऐसे निजी सचिव जिन्होंने निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड-I में छः वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की हो, जिसमें निजी सचिव के रूप में कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा की हो ।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा (अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,</p>

जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा) पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर स्तर में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु 44900-142400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् निजी सचिव के पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. संबंधित उप महानिदेशक, सेना मुख्यालय	- अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य, सेना मुख्यालय	- सदस्य
3. अवर सचिव, संबंधित प्रशासनिक अनुभाग, रक्षा मंत्रालय	- सदस्य

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. निजी सचिव	69* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, सचिवीय	स्तर-7 (रु. 44900-142400)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-I, जिन्होंने उस वेतन स्तर में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल कॉर्डर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल कॉर्डर या विभाग में वेतन स्तर-6 (रु. 35400-112400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आशुलिपिक के पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉर्डर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. संबंधित उप महा निदेशक, सेना मुख्यालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य, सेना मुख्यालय - सदस्य 3. अवर सचिव, संबंधित प्रशासनिक अनुभाग, रक्षा मंत्रालय - सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. आशुलिपिक श्रेणी-I	459* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, सचिवीय	स्तर-6 (रु. 35400-112400)	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	1/3 प्रोन्नति द्वारा एवं 2/3 प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, द्वारा ।

(11)

प्रोन्नति : वेतन स्तर-4 (रु. 25500-81100) में के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-II, जिन्होंने उस स्तर में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता

सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन स्तर-4 (रु. 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(12)	(13)
<p>❖ समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संबंधित उप महानिदेशक, सेना मुख्यालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य, सेना मुख्यालय - सदस्य 3. अवर सचिव, संबंधित प्रशासनिक अनुभाग, रक्षा मंत्रालय - सदस्य <p>❖ विभागीय पुष्टि समिति में निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संबंधित उप महानिदेशक, सेना मुख्यालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य, सेना मुख्यालय - सदस्य 3. अवर सचिव, संबंधित प्रशासनिक अनुभाग, रक्षा मंत्रालय - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

[फा. सं. 15203/15/एमपी-4(सिव)(ए)/आर आर /481/र.(नि.) 2017]

अनिल कुमार, उप सचिव (सिव कार्मिक)

New Delhi, the 28th February, 2017

S.R.O. 15.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Army Group 'B' (Senior Private Secretary and Private Secretary) Recruitment Rules, 2006 in so far as they relate to the posts of Senior Private Secretary and Private Secretary, and (ii) the Ministry of Defence, Army (Stenographer Grade-I) Group 'B' Post Recruitment Rules, 2005 in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-I respectively except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Private Secretary, Private Secretary and Stenographer Grade-I in the lower formations of the Army in the Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.—

(i) These rules may be called the Army Stenographers Cadre (Group 'B' Gazetted and Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2017.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix.—The number of posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of Posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection or non selection post	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Private Secretary.	21* (2017) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Level-8 (Rs.47600-151100)	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, the grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Private Secretary in the Level 7 (Rs.44900- 142400) in the Pay Matrix having two years regular service in the Level failing which Private Secretary having six years combined regular service as Private Secretary and Stenographer Grade-I in Level-6 (Rs. 35400-112400) out of which at least one	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Concerned Deputy Director General at Army Headquarters - Chairman. (2) Joint Director or equivalent at Army Headquarters - Member. (3) Under Secretary of concerned Administrative Section in Ministry of Defence - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation including short term contract .

<p>year regular service as Private Secretary.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including Short Term Contract):</p> <p>Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or recognised Research Institutions or Universities or semi Government or Statutory or autonomous organization -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or</p> <p>(ii) with two years' regular service in the post of Private Secretary rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 7 (Rs. 44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short Term Contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation [including Short Term Contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation [including Short Term Contract] shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Private Secretary.	69* (2017) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Level 7 (Rs. 44900-142400)	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation include Short Term Contract.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Stenographer Grade I in the Level 6 (Rs. 35400-112400) having five years regular service in the level.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:(Including Short Term Contract):</p> <p>Officers holding the post of stenographer under the Central Government or State Governments or union territories or public sector undertakings or recognised research institutions or universities or semi Government or statutory or autonomous organisations.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or</p> <p>(b)</p> <p>(ii) With five years' service in the post of Stenographers rendered after appointment thereto on regular basis in the Level 6 (Rs. 35400- 112400) or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -</p> <p>(1) Concerned Deputy Director General at Army Headquarters - Chairman</p> <p>(2) Joint Director or equivalent at Army Headquarters - Member</p> <p>(3) Under Secretary of concerned Administrative Section in Ministry of Defence - Member</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including Short Term Contract).</p>

(including Short Term Contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation [including Short Term Contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Stenographer Grade I.	459* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400- 112400)	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	1/3 rd by promotion. 2/3 rd by Deputation including short term contract.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion : Stenographer Grade II in the Level-4 (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the level.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including Short Term Contract) - Officers holding post of stenographer under the Central Government or State Government or union territories or public sector undertaking or recognised research institute or universities or semi government or statutory or autonomous organisation.</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with ten years' regular service rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-4 (Rs 25500- 81100) or equivalent in the parent cadre or department.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concerned Deputy Director General Army Headquarters - Chairman 2. Joint Director or equivalent at Army Headquarters - Member 3. Under Secretary of concerned Administrative Section, Ministry of Defence - Member <p>Departmental Confirmation Committee consisting of –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concerned Deputy Director General Army Headquarters - Chairman 2. Joint Director or equivalent at Army Headquarters - Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including Short Term Contract).</p>

<p>Note : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short Term Contract). Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation (including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).</p>	<p>3. Under Secretary of concerned Administrative Section, Ministry of Defence - Member</p>	
---	---	--

[F. No. 15203/15/MP-4 (Civ)(a)/RR/481/D (Apptt)/2017]

ANIL KUMAR, Dy. Secy. (CP)